



अंक 9, 15 जून 2017

# संगठन संवाद पत्र

विस्तृत प्रवास, छत्तीसगढ़

08, 09 और 10 जून 2017

छत्तीसगढ़  
प्रवास



मिशन  
65+



08 जून 2017

(प्रातः 5:45 रात्रि 11:45)



- 5:45 दिल्ली निवास से हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान
- 8:40 रायपुर हवाई अड्डे पर आगमन एवं मुख्यमंत्री व वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत
- 9:45 प्रदेश कार्यालय अतिथि गृह में आगमन और पदाधिकारियों के साथ नाश्ता
- 10:35 मुख्यमंत्री के साथ चर्चा
- 11:15 जिले स्तर के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीधा संवाद एवं चर्चा
- 12:35 प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के निवास के लिए प्रस्थान
- 12:50 प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के निवास पर विभिन्न संत समाज के लोगों के साथ भोजन पर चर्चा
- 2:45 प्रदेश कार्यालय में आगमन और कोर ग्रुप की बैठक
- 4:00 प्रदेश कार्यालय में विभिन्न मोर्चों एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ सीधे संवाद में उनके लक्ष्यों का निर्धारण
- 4:50 विभागों और प्रकल्पों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद और उनके लक्ष्यों का निर्धारण
- 6:25 आजीवन सहयोग निधि की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वच्छ राजनीति के लिए पारदर्शी कोष व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर देते हुए, पार्टी के लिए इसके महत्व पर चर्चा की
- 6:50 प्रदेश के विभिन्न समाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक चर्चा में उनकी समस्याओं के निर्धारण के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आश्वस्त किया
- 8:00 वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ भोजन पर चर्चा
- 9:00 भाजपा के पार्टी विधायकों और सांसदों के साथ बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए
- 10:30 दिन भर के कार्यक्रमों पर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक
- 11:30 रात्रि विश्राम



09 जून 2017

(प्रातः 7:45 से रात्रि 11:30)



- 7:45** वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ नाश्ता और संघ कार्यालय के लिए प्रस्थान
- 9:10** संघ कार्यालय में वरिष्ठ संघ पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवाद
- 10:50** मास मेमोरियल ग्राउंड में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 'मोदी फेस्ट' का उद्घाटन
- 11:35** भाजपा प्रदेश कार्यालय के सभागार में दीन दयाल उपाध्याय विस्तारक योजना में निकले विस्तारकों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने संवाद करते हुए उन्हें उनकी जिम्मेदारियों एवं कार्यप्रणाली पर प्रशिक्षण दिया
- 12:30** मंत्रिमंडल की बैठक में श्री अमित शाह ने सरकार और पार्टी के समन्वय के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की
- 2:10** वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भोजन
- 3:40** आईटी विभाग, मीडिया विभाग और चुनाव प्रबन्धन विभाग के द्वारा प्रस्तुति के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इन विभागों के रणनीतिक लक्ष्यों का निर्धारण किया
- 5:15** मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा
- 6:10** मेडिकल कॉलेज सभागार में प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों के मूलभूत अंतर को सामने रखते हुए भाजपा की विचारधारा को मजबूती से रखा
- 7:30** मुख्यमंत्री आवास पर मीडिया के वरिष्ठ संपादकों के साथ भोजन पर चर्चा के दौरान श्री शाह ने प्रदेश और केंद्र सरकार के कार्यों पर बल दिया और पत्रकारों के कठिन सवालों के सधे हुए जवाब दिये
- 9:30** भाजपा प्रदेश कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोर ग्रुप की रणनीतिक महत्ता पर बल देते हुए सभी कोर ग्रुप सदस्यों को व्यवस्थित रूप से काम करने के निर्देश दिए
- 10:45** दिन भर के कार्यों की समीक्षा
- 11:30** रात्रि विश्राम



10 जून 2017

(प्रातः 8:15 से रात्रि 10:15)



- 8:15** मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ नाशते के उपरान्त कटोरा तलाब के लिए प्रस्थान
- 9:30** कटोरा तलाब में स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम में भाग लिया
- 10:00** हेलीकाप्टर से सोना खान कजे लिए प्रस्थान
- 10:35** ग्राम सोना खान में शहीद वीर नारायण सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दर्शन
- 11:00** गिरौध पूरी के लिए प्रस्थान
- 11:20** गिरौध पुरी में गुरु घासीदास जी के जन्मस्थली एवं तपोभूमि में दर्शन
- 12:05** हेलीकाप्टर से रायपुर के लिये प्रस्थान
- 1:00** होटल बेबीलोन रायपुर में आगमन और पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया कर्मियों के कठिन प्रश्नों को सहज रूप से उत्तर देते हुए पार्टी का पक्ष रखा
- 2:30** राम मंदिर में पूजन और दर्शन
- 3:00** इनडोर स्टेडियम रायपुर में प्रदेश और राज्य सरकार के कार्यक्रमों के लाभार्थियों को सम्मानित करके श्री अमित शाह ने महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों का उल्लेख किया और राष्ट्र निर्माण में मातृशक्ति की महत्ता को रेखांकित किया
- 4:15** भाजपा कार्यालय में आगमन और वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक
- 6:45** हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान
- 10:15** दिल्ली आवास पर आगमन



## मिशन 65+



**वि** स्तृत प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह 8 जून 2017 से 10 जून 2017 तक के तीन दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ रहे। इस दौरान श्री अमित शाह की उपस्थिति में हुईं तमाम बैठकों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों से पार्टी को संगठन एवं विचारधारा के प्रसार एवं प्रचार की दृष्टि से उल्लेखनीय लाभ मिला है। इस प्रवास कार्यक्रम को पार्टी निम्न उपलब्धियों के रूप में देख रही है।

- छत्तीसगढ़ में अब तक हुए तीनों विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जीत दर्ज करके सरकारें तो बनाई हैं परन्तु किसी भी चुनाव में भाजपा 50 सीटों और 40% वोट का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने प्रवास के दौरान कई मौकों पर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों में 65 सीटों का लक्ष्य कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा। यह लक्ष्य महत्वाकांक्षी तो है परन्तु राष्ट्रीय अध्यक्ष के आत्मविश्वास भरे आह्वान से निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ।
- इस प्रवास के दौरान कई मौकों पर श्री शाह ने जिले और बूथ स्तर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ खुले मन से सीधा संवाद किया। कार्यकर्ताओं से हुए इस संवाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जहां एक ओर उनके लिए कठिन लक्ष्य और आचार संहिता तय की वही उनकी समस्याओं को खुले दिल से सुन कर उन्हें प्रोत्साहित भी किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय विस्तारक योजना में निकले पूर्ण कालिक विस्तारकों को स्वयं प्रशिक्षण देकर भाजपा के अन्दर विकेन्द्रित व्यवस्था की नई परिपाटी का सन्देश दिया। भाजपा में कार्यकर्ताओं के महत्त्व को बार-बार दोहराने से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने में सफलता पाई।
- प्रदेश सरकार और प्रदेश संगठन के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से संयुक्त संवाद करके श्री शाह ने सरकार और पार्टी के बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ किया जिससे राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे अच्छे कार्यों को जनता के बीच पहुंचाने के प्रयासों को गति मिलेगी।
- केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए दिए जा रहे अनुदान में लगभग तीन गुना वृद्धि को रेखांकित करके श्री शाह ने मोदी सरकार की प्रदेश के प्रति संवेदनशीलता को स्पष्ट किया। तीन गुना बढ़े अनुदान के अतिरिक्त श्री शाह केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं से छत्तीसगढ़ की जनता को मिले लाभों को भी रेखांकित किया, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं; जनधन योजना में 1 करोड़ 24 लाख बैंक खाते, मुद्रा योजना से 16.1 लाख छोटे उद्यमियों को 5,729 करोड़ का लोन, 11 लाख गरीब माताओं को उज्ज्वला गैस और 18 लाख शौचालयों का निर्माण इत्यादि।
- केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की महिला लाभार्थियों को सम्मानित करने के समारोह में श्री शाह ने राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के योगदान पर बल देते हुए मोदी सरकार की महिला सशक्तिकरण प्रति प्रतिबद्धता की बात कही। श्री शाह के इस प्रयास से प्रदेश की महिलाओं में एक बहुत ही सकारात्मक सन्देश गया।
- श्री शाह ने कई आदिवासी और अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक/सामाजिक रूप से पिछड़े समाज के प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क करके उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें यथोचित आश्वासन दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस प्रयास से राजनैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन वर्गों में पार्टी के प्रति के सकारात्मक सन्देश गया है।
- शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि देकर और कई अन्य छत्तीसगढ़ के गौरव से जुड़े स्तंभों को याद करके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व की प्रदेश की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता को प्रकट किया जिसका सम्पूर्ण प्रदेश में सकारात्मक सन्देश गया।
- भाजपा की छत्तीसगढ़ सरकार को अक्सर नक्सलवाद के मुद्दे पर घेरा जाता रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकारों और अन्य सार्वजनिक मंचों पर इस विषय पर सरकार का मत मजबूती के साथ रखते हुए स्पष्ट किया कि भाजपा के शासन में नक्सलवाद तेजी से कम हो कर सिर्फ एक-दो जिलों में सिमट गया है। शाह के इस प्रयास से भाजपा की नक्सलवाद से प्रभावी लड़ाई लड़ने के संकल्प का सन्देश गया।

## विदेश संपर्क विभाग

**वि**श्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को लेकर विश्व जगत में भी लोगों की रुचि है। भारत के लोग जो बड़ी संख्या में विदेशों में रहते हैं, उनकी रुचि भी स्वाभाविक है। पार्टी के तमाम ऐसे कार्य होते हैं जिनकी जानकारी विदेशों में जा रहे लोगों एवं संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचनी चाहिए और उनसे संवाद स्थापित होना चाहिए। मूल रूप पार्टी के विदेश संबंधी गतिविधियों के सफल और सुचारू रूप से होने वाले सञ्चालन का दायित्व पार्टी के विदेश संपर्क विभाग का है। पार्टी के विदेश मामलों के सरोकारों का सञ्चालन पार्टी का यह विभाग करता है। इसके उद्देश्यों एवं दायित्वों को निम्न रूपों में समझा जा सकता है।

- ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ़ बीजेपी की विभिन्न इकाइयों का सुचारू रूप से संचालन, उसके लिए आवश्यक नियम इत्यादि विकसित करना।
- पार्टी, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ़ बीजेपी तथा सरकार का विदेश विभाग इन तीनों में आवश्यक समन्वय बनाना।
- पार्टी का विभिन्न देशों के राजनयिकों के साथ संवाद और सम्पर्क बढ़ाना, पार्टी की सही छवि उन तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना।
- विभिन्न दूतावासों में आवश्यकता के अनुसार पार्टी का प्रतिनिधित्व करना।
- अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया से सम्पर्क विकसित करना।
- अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सम्मुख पार्टी की सही छवि प्रस्तुत हो, यह सुनिश्चित करना।
- ओएफ़ बीजेपी के कार्यक्रम तथा अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ होने वाली चर्चा तथा वार्तालापों इत्यादि का डॉक्युमेंटेशन करना।
- मूलतः प्रदेश के रहने वाले और अभी विदेशों में बसे अनिवासी प्रदेशवासियों के साथ निरन्तर सम्पर्क की व्यवस्था।
- अनिवासी-प्रदेशवासियों की सहभागिता के लिए आवश्यक व्यवस्था खड़ी करना तथा उस पर अमल करना।

### विदेश संपर्क विभाग पर श्री अमित शाह के विचार:

श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अप्रवासी भारतीयों का प्रभाव वैश्विक जगत में जिस तरह से बढ़ा है उससे उनका देश के नेतृत्व पर भी विश्वास बढ़ा है। इसका प्रमाण प्रधानमंत्री के विदेश दौरों के दौरान उनके स्वागत में भारतीय मूल के लोगों का हज़ारों की संख्या में उमड़ना है। अतः भाजपा का भी दायित्व है कि हम इन अप्रवासी भारतीयों से सीधा संपर्क बना कर मातृभूमि से उनके जुड़ाव को मजबूती देने और उनके विकास का प्रयास करें। इस काम में “विदेश संपर्क विभाग” की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी।



**६६ कार्यकर्ता आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 65 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखकर कार्य करें। ९९**

## राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह द्वारा छत्तीसगढ़ प्रवास में दिए गए उद्बोधन के मुख्य बिंदु:

भारतीय जनता पार्टी आज वैभव के जिस शिखर पर है, यह हमारे पुरखों के अथक और निःस्वार्थ परिश्रम का प्रतिफल है।

हमारे महान मनीषियों ने यह स्वप्न देखा था कि सुदूर वनांचल क्षेत्र में निवासरत हर देशवासी तक शासन की सुविधा का लाभ पहुंच सके, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, पिछड़े, युवावर्ग एवं महिलाओं के जीवन स्तर को और बेहतर बनाया जा सके, आज हम उस स्वप्न को साकार करने की दिशा में तेज गति से काम कर रहे हैं।

हम उस वक्त भी कहते थे इस देश की राजनीति का लक्ष्य अंत्योदय होना चाहिए ताकि विकास की दौड़ में पीछे छूट गए अंतिम व्यक्ति को विकास की दौड़ में खड़े सबसे पहले व्यक्ति के बराबर लाया जा सके और आज भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी कहते हैं - सबका साथ, सबका विकास।

अब देश में सरकारों का तुलनात्मक अभियान करने का समय आ गया है कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट एवं क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारों ने कैसा काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में किस तरह से विकास हुआ है।

मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि हमारे विरोधी भी हमारी सरकारों का आकलन करेंगे तो वे हमें 100 में से 100 अंक देंगे।

कि पार्टी के संस्थापक हमारे महान मनीषियों ने यह स्वप्न देखा था कि सुदूर वनांचल क्षेत्र में निवासरत हर देशवासी तक शासन की सुविधा का लाभ पहुंच सके, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, पिछड़े, युवावर्ग एवं महिलाओं के जीवन स्तर को और बेहतर बनाया जा सके, आज हम उस स्वप्न को साकार करने की दिशा में तेज गति से काम कर रहे हैं।

BJP teams to go door to door with Deendayal message

BJP will win 65 seats in 2018 Assembly polls: Amit Shah

Says there is no need to apologise for calling Mahatma Gandhi a 'chatur baniya'

3 साल में नहीं लगा भ्रष्टाचार का कोई आरोप : अमित शाह

Govt is both pro-farmer and pro-industry: Shah

देश में पहली बार सर्वस्पर्शी-सर्व समावेशक सरकार : शाह

सभी का विकास कर रही सरकार

BJP for Rural & Urban Development: Shah



शाह बोले, 90 सीटों पर ध्यान केंद्रित कर 65 सीटों पर सुनिश्चित करें जीत

65 का लक्ष्य, चुनौतियों पर चिंता

शाह ने मुख्यमंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारी

शाह बोले- छत्तीसगढ़ में सब अच्छा या फिर कुछ भी नहीं

अमित शाह ने दिया प्रदेश भाजपा को लक्ष्य- 90 में से 70 सीटें जीतो

परिश्रम-पुरुषार्थ से होगी लक्ष्य प्राप्ति : शाह

अमित शाह ने किया भारत को श्रेष्ठ, समृद्ध, संस्कारित बनाने का आह्वान

